



# BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 01 दिसम्बर 2022

थाना जहांगीराबाद

## स्वाट टीम व थाना जहांगीराबाद पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में शातिर चोर गिरोह के 06 सदस्य गिरफ्तार, कब्जे/निशादेही से चोरी के 01 करोड़ 21 लाख बरामद

दिनांक 29.11.2022 को एक व्यवसायी द्वारा थाना जहांगीराबाद पर उनकी गाड़ी से उनके ड्राइवर व अन्य के द्वारा 30 लाख रुपये व कांगजात चोरी होने के संबंध में सूचना दी गयी थी। जिसके संबंध में थाना जहांगीराबाद पर मुअसं-645/22 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस घटना के शीघ्र अनावरण हेतु स्वाट टीम व थाना जहांगीराबाद पुलिस को लगाया गया था।

उक्त क्रम में आज दिनांक 01.12.2022 को स्वाट टीम व थाना जहांगीराबाद पुलिस टीम द्वारा मुखविर की सूचना पर संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए कस्बा जहांगीराबाद में एक मकान से 06 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के कुल 01 करोड़ 12 लाख रुपये नकद बरामद किये गये। अभियुक्तों द्वारा पकड़े जाने के डर से रुपये को घर में गढ़वा खोदकर दबा दिया था तथा एक अभियुक्त द्वारा 4.5 लाख - 4.5 लाख रुपये अपने दो रिस्तेदारों के खातों में भेजने की स्वीकारोक्ति की गयी है जिनको फ्रीज करने हेतु वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकार कुल 01 करोड़ 21 लाख रुपये की बरामदगी की गयी है। अभियुक्तों द्वारा जनपद गाजियाबाद स्थित एक मकान से चोरी की घटना करने की भी स्वीकारोक्ति की गयी है जिसके संबंध में जानकारी की जा रही है। बरामद रुपयों के स्रोत के बारे में गहनता से जांच की जा रही है तथा अन्य एजेंसियों से भी सम्पर्क किया जा रहा है।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. नेमपाल पुत्र शिवलाल निवासी मौ0 लौधान कस्बा व थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।
2. रंजीत सिंह पुत्र शिवलाल निवासी उपरोक्त।
3. यतेन्द्र पुत्र शिवलाल निवासी उपरोक्त।
4. तरुण राघव उर्फ भोला पुत्र लवकुमार उर्फ लवकुश सिंह निवासी ग्राम चांदौक थाना जहांगीराबाद बुलन्दशहर।
5. उमेश सैनी पुत्र किशनपाल निवासी ग्राम नागौर थाना खानपुर जनपद बुलन्दशहर।
6. सुमित कुमार पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी उपरोक्त।

### बरामदगी-

1. कब्जे/निशादेही पर चोरी के 01 करोड़ 21 लाख रुपये

अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी के सम्बन्ध में थाना जहांगीराबाद पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

### गिरफ्तार करने वाली टीम

1. श्री नीरज कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना जहांगीराबाद
2. निरीक्षक श्री ऋषिपाल सिंह, व0उ0नि0 विनोद कुमार
3. का0 सुधीर कुमार, का0 भरत लाल, का0 सोहनवीर, का0 चालक धनपाल

### स्वाट टीम-

1. निरीक्षक श्री सुधीर कुमार त्यागी
2. उ0नि0 पटनीश कुमार प्रभारी स्वाट टीम
3. है0का0 मनोज दीक्षित, है0का0 जितेन्द्र यादव, है0का0 विकास चौधरी, का0 विशाल चौहान, का0 कपिल नैन, का0 वसीम, का0 प्रबली तोमर, का0 संदीप कुमार, का0 अमन यादव, का0 नीरज त्यागी, का0 चालक मनीष त्यागी

